



February 22, 2024

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400001

Scrip Code: 533320

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai-400051

SYMBOL: JUBLINDS

Sub: Submission of copies of newspaper advertisements for Notice of Postal Ballot

Dear Sir / Ma'am

Further to our letter dated February 21, 2024, we enclose copies of the advertisements published on February 22, 2024, in Mint (English) and Hindustan (Hindi), with respect to completion of dispatch of notices of Postal Ballot.

The above information shall also be available on the website of the Company at <https://www.jubilantindustries.com/>.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For **Jubilant Industries Limited**

Brijesh Kumar
Company Secretary & Compliance Officer

A Jubilant Bhartia Company

OUR VALUES



Jubilant Industries Limited
Plot No. 15, Knowledge Park II,
Greater Noida, Distt. Gautam
Budh Nagar - 201 306, UP, India
Tel: +91 120 7186000
Fax: +91 120 7186140
www.jubilantindustries.com

Regd Office:
Bhartiagram, Gajraula
Distt. Amroha-244 223
UP, India
CIN: L24100UP2007PLC032909

investorsjil@jubl.com



Indian banks' rush for clients set for reckoning post Paytm

The central bank may get tougher before governor Shaktikanta Das steps down this year

Bloomberg
feedback@livemint.com

For Indian regulators seeking to crack down on potential fraud in the financial sector, Paytm may just be the beginning. India stunned investors last month by abruptly suspending most activities of the banking affiliate of Paytm, a once high-flying fintech star that had attracted backing from Warren Buffett and SoftBank Group Corp. While the Paytm case was an extreme example of lapses in customer verification—it allegedly used a single identity document to open thousands of accounts—the crackdown signals growing impatience from authorities.

Hardly a day passes when a bank or fintech firm isn't fined for failing to properly vet its customers, ensnaring top lenders from State Bank of India to Citigroup Inc. Fed up with the persistent shortcomings, the Reserve Bank of India is likely to get even tougher before governor Shaktikanta Das steps down this year.

"RBI has enough tools and a penalty is just the beginning," said Prakash Agarwal, founder of Gefion Capital Advisors. He said the fines serve as a "symbolic warning for more dire measures to come, such as a sledgehammer action taken against Paytm bank."

Regulatory concerns are rising as lenders rush to open more accounts and mop up deposits to meet the soaring demand for loans in the fastest-growing major economy. Most banks typically outsource the last mile of customer verification to third-party firms or so-called runners, and leakages occur at many points in that largely paper process, according to Ashok Hariharan, chief executive officer of IDfy, which provides client vetting services to banks and fintechs firms in India.

While big banks can do more, it's a challenge dealing with firms that don't



RBI governor Shaktikanta Das has repeatedly warned about the need to strengthen risk management in banks and shadow lenders.

REUTERS

have strict fraud and risk teams, he said. RBI governor Das has repeatedly warned about the need to strengthen risk management in banks and shadow lenders. Even though bad debts are at a more than decade low, these lapses in customer verification have been among major concerns for the central bank.

vent fraud, the cases are rising. The number of reported frauds of more than ₹100,000 (\$1,205) rose 68% to more than 14,000 from April to September last year, almost triple the rate for the previous six-month period, according to an RBI report. The sharpest increase of fraud cases was in credit cards, online

has increased sharply, as can be parsed from the central bank's website.

"RBI getting stricter on KYC is the right thing to do, and people are going to get serious about it now," said IDfy's Hariharan. "In many instances, there is a frivolous attitude toward KYC."

Customer data in the country has been misused, according to Hariharan. In a typical set-up, fraudsters pay runners who collect so-called Know-Your-Customer documents for bank customers and offer them as little as ₹500 for the data, he said. This allows fraudsters to operate multiple bank accounts from the identity theft, and they collect money in these accounts by duping customers largely through phishing calls, he added. In addition to its crackdown on banks, RBI ordered Visa Inc. this month to immediately stop a payments service where cards were used to transact with merchants who weren't allowed to accept such payments.

Yet no recent case has drawn as much attention as Paytm, controlled by billionaire Vijay Shekhar Sharma. The firm burst onto India's equity markets in 2021 with a \$2.5 billion initial public offering, the largest ever in the country and attracted a who's who of global investors. Masayoshi Son's SoftBank was on board, as was China fintech giant Ant Group Co. and the Canada Pension Plan Investment Board.

Its affiliate company, which takes deposits and offers payment services much like PayPal Holdings Inc., has been in the regulator's crosshairs. On 31 January, RBI barred Paytm Payments Bank Ltd from accepting fresh credits in its customer accounts or mobile wallets after 29 February. Bloomberg News has reported that hundreds of thousands of customers didn't submit their KYC documentation. The RBI move sent Paytm stock tumbling. Regulators last week extended that deadline to 15 March, and Paytm is in talks with other banks to clear merchant payments.

RBI bolsters fintech scrutiny with more inspections

Reuters
feedback@livemint.com
MUMBAI

From hiring analysts, to scrutinising customer data, to holding frequent meetings with executives, India's financial regulator is bolstering oversight of fintech firms in a signal of an end to years of light-handed regulation of a key business sector.

Those steps from the Reserve Bank of India (RBI) come after regular inspections over the past year found a number of fintech firms have been lax in following, for example, customer due diligence, five persons with knowledge of the matter said.

Fintech firms and their investors were given a foretaste of that stricter approach last month when the central bank ordered sector giant Paytm to wind down its banking unit due to, what it termed, persistent non-compliance with regulations.

That directive, which stirred disquiet in the sector, was followed by a separate order this month to Visa asking it to stop business-to-business card payments through third party fintech firms.

The RBI's moves come as financial regulators in other major markets, including in China, crack down on rule violations and frame new regulations for the fintech sector after having taken a laissez-faire approach for a long time.

Globally, fintech firms provide a range of services—from payments to small credit and deposits—and as their economic influence increases, regulators are sharpening scrutiny of their linkages with the broader financial system.

Like in India, nimble-footed fintech firms' customer due diligence and data handling processes have also raised concerns for the central banks and regulators globally as they



RBI has ordered Paytm Payments Bank to wind down due to, what it termed, persistent non-compliance with regulations.

try to tamp down on monopoly, data privacy, money laundering and spillover risk.

"The RBI is very clear, whether you are 'fin(ancial) or tech or fintech', basic rules governing customer identification and a clear footprint of fund flows have to be followed," said one of the persons familiar with the central bank's thinking.

All the persons declined to be named as they were not authorised to speak to the media.

A spokesperson for the RBI did not respond to an email seeking details of its interactions with fintech firms.

In particular, the central bank is uneasy with the digital customer identification process used by fintech firms, which relies on a government identity proof, called Aadhaar, and a linked mobile number to verify a person's identity.

This method is widely used by fintech firms as a faster and cheaper way to do due diligence, but it is also prone to manipulation, which raises fraud or money laundering concerns, said the second person.

While the RBI has not pro-

hibited the use of this method of verification, it has asked that digitally verified accounts be tagged as "high risk" till the time physical or video-call based identification is completed, according to central bank's regulations on customer due diligence.

As part of its sharpened oversight, RBI officials have been picking out random samples of a fintech firm's user base during frequent onsite inspections to check for authenticity, founders at two fintech firms said.

Frequency of such meetings has increased from once a quarter last year to once a month now, one of the founders said.

Separately, the RBI is also investing in better technology to catch regulatory violations and hiring analysts to study millions of customers' personal data held by the fintech firms, the second source said.

India's finance ministry will hold meetings with the home-grown fintech startups, some of them backed by marquee global investors, next week to urge them to comply with regulations and hear their concerns, Reuters reported on Tuesday.

LEAKY PROCESS

REGULATORY concerns are rising as lenders rush to mop up deposits to meet loan demand	TYPICALLY , most banks outsource the last mile of customer verification to third-party firms	LEAKAGES happen during verification processes at many points in it are largely still not digital	THOUGH bad loans are at a record low, the lapses in process of verification is a big worry for RBI
--	---	---	---

"The interest of depositors and customers is of prime importance," Das said in a post-monetary policy briefing this month. "Financial stability is of prime importance."

While Indian banks have boosted spending on technology to detect potential money laundering and pre-

transactions and deposits, the data show.

RBI, which can levy a maximum penalty of ₹5 crore for violations, imposed fines of ₹4 crore in the fiscal year that ended in March, down from ₹65.03 crore the prior year. Still, in the current fiscal year, the frequency of such fines

Hindustan Times FIRST VOICE. LAST WORD.

FACTS WITHOUT FILTER, NEWS WITHOUT BIAS



NUMBER THEORY

Poll math: Is Cong where Jan Sangh was in '60s-'70s?

1 The Congress was much smaller than its prospective allies in the 2014 and 2019 elections

2 The Jan Sangh was in an even weaker situation in its initial years.

3 but ideology-agnostic opposition alliances managed to keep the Congress out of power in many states

Read Number Theory to access unparalleled data-journalism with statistically analyzed news.

Hindustan Times FIRST VOICE. LAST WORD.

Jubilant Industries Limited

(CIN: L24100UP2007PLC032909)
Registered Office: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223, Uttar Pradesh, India
E-mail: investors@jubil.com; Website: www.jubilantindustries.com, Phone: +91-5924-267437

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Members are hereby informed that pursuant to Section 108 and Section 110 of the Companies Act, 2013 (the 'Act'), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time read with the Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022 and 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') (hereinafter collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 5, 2023 and October 7, 2023, respectively, (hereinafter collectively referred to as 'SEBI Circulars') and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and other applicable provisions of the Act and the Listing Regulations, circulars and notifications issued thereunder (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), the Company has sent E-mail along with the Postal Ballot notice dated February 9, 2024 through National Securities Depository Limited (NSDL) on February 21, 2024, and the Login ID and password to the Members for e-voting who have registered their E-mail IDs with the Depository Participants or with the Company / Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), for seeking approval of members of the Company for the Appointment of Ms. Sanjanti Sajjan (DIN: 00431379) as an Independent Director of the Company.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Kapil Dev Taneja (FCS No. 4019, CP No. 22944) or failing him Mr. Neeraj Arora (FCS No. 10781, CP No. 16186), Partner(s) of M/s. Sanjay Grover & Associates, Company Secretaries, as 'Scrutinizer' for conducting the Postal Ballot process through remote e-voting in a fair and transparent manner.

Members shall be able to provide their assent or dissent through remote e-voting only. The Company has engaged the services of NSDL as an agency to provide remote e-voting facility to the Equity Shareholders of the Company to enable them to cast their votes electronically. The detailed procedure for e-voting is mentioned in the notes to the Postal Ballot Notice. Members are requested to note that e-voting shall commence from Saturday, February 24, 2024 at 9:00 A.M. (IST) and shall end on Sunday, March 24, 2024, at 5:00 P.M. (IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

In accordance with the aforesaid MCA Circulars, physical copies of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot forms and prepaid Business Reply Envelope are not being sent to the Members. The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the remote e-voting system only.

The voting rights of Members shall be reckoned as on Friday, February 16, 2024 ("Cut-off date"). The copy of the Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.jubilantindustries.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com. Members who have not received the Postal Ballot Notice may download it from the above mentioned websites.

Process for those shareholders whose email ids are not registered:

- In case shares are held in physical mode, please share Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (Self-attested Scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) through email at investors@jubil.com or rta@alankit.com.
- In case shares held in demat mode, please share DPID-CLID (16 digit DPID+CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (Self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (Self-attested scanned copy of Aadhar Card) through email at investors@jubil.com or rta@alankit.com.

In case of any queries or grievances relating to e-voting, you may contact Mr. Amit Vishal, Assistant Vice President, NSDL, Trade World, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, India through e-mail at evoting@nsdl.com or call on 022-4886 7000 and 022-2499 7000 or Mr. J.K. Singla, Dy. General Manager, Alankit Assignments Limited, 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110 055, India, through email at rta@alankit.com or call on Telephone No.: 011-42541234.

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or person authorized by the Chairman, after the completion of scrutiny of the e-voting, and the results will be announced on or before Tuesday, March 26, 2024. The results along with the Scrutinizer's Report shall be communicated to the Stock Exchanges, NSDL and will also be displayed on the website of the Company (as mentioned above) and at the Registered Office and the Corporate Office(s) of the Company.

For Jubilant Industries Limited
Sd/-
Brijesh Kumar
Company Secretary & Compliance Officer
ACS No: 36070

Date: February 21, 2024
Place: Gurugram

शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मौजूद किसान जेसीबी और बैरिकेडिंग हटाने वाली मशीनों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ने के लिए तैयार

मास्क-भारी मशीनों से लैस किसान मोर्चे पर डटे

तनातनी

चंडीगढ़/नई दिल्ली, एजेंसी/ विशेष संवाददाता। शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच के लिए अड़े किसान खुदाई और बैरिकेडिंग हटाने से जुड़ी भारी-भरकम मशीनों से लैस हैं। पुलिस इन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है तो उससे बचाव के लिए इन्होंने मास्क भी पहन रखा है। शंभू बॉर्डर पर बुधवार को आंदोलन कर रहे किसान बांडी प्रोटेक्टर के साथ मास्क और चश्मा पहने नजर आए। उन्हें अंदाजा था कि जब वे आगे बढ़ेंगे तो पुलिस उन पर आंसू गैस छोड़ेगी। इसी को देखते हुए प्रदर्शनकारियों ने तैयारी की थी। यही नहीं साउंड केनन से निपटने के लिए वे स्पेशल इयर बड्स लेकर आए हैं। किसानों द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों जैसे पोकलेन और जेसीबी लाई गई हैं। वैसे किसान नेताओं ने इन मशीनों का इस्तेमाल करने से इनकार किया है।

भाजपा ने कहा, शांतिपूर्वक समाधान निकालें : भाजपा ने किसान आंदोलनकारियों से अपील की है कि वह सरकार के बातचीत के प्रस्ताव पर आगे आएँ और इस मामले का शांतिपूर्वक समाधान निकालें। इस बीच भाजपा नेता दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी सक्रिय हैं ताकि आंदोलनकारियों के समर्थन में अन्य राज्यों के किसानों के समर्थन को रोका जा सके।

भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया है। किसानों के विकास को केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता करार देते हुए प्रसाद ने कहा कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बातचीत की पेशकश की है, चर्चा और संवाद से ही हल निकलेगा।

पंचायती युगी में प्रदर्शन : भाकियू के अह्वान पर दिल्ली में किसान बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए कलकट्टे पहुंचे। यहां राकेश टिक्टैत ने कहा कि वह किसानों पर हो रहे अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर, मुजफ्फरनगर में एक किसान ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसे पुलिस और अन्य लोगों ने बचा लिया।



पंजाब-हरियाणा शंभू बॉर्डर के पास बुधवार को प्रदर्शनकारी किसान अपने 'दिल्ली चलो' मार्च के दौरान। यहां बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए भारी-भरकम मशीनों के साथ किसान डटे हुए हैं। • एपी



हरियाणा-पंजाब के बॉर्डर के पास बुधवार को अपने ट्रैक्टर के साथ मास्क पहने प्रदर्शनकारी किसान। • प्र



शंभू बॉर्डर के पास पुलिस की ओर से छोड़े जा रहे आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए मास्क पहने प्रदर्शनकारी। • राबर्ट्स

केंद्र खुले मन से किसानों के साथ चर्चा को तैयार : रविशंकर

तल्खी

भाजपा ने कहा, शांतिपूर्वक समाधान निकालें : भाजपा ने किसान आंदोलनकारियों से अपील की है कि वह सरकार के बातचीत के प्रस्ताव पर आगे आएँ और इस मामले का शांतिपूर्वक समाधान निकालें। इस बीच भाजपा नेता दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी सक्रिय हैं ताकि आंदोलनकारियों के समर्थन में अन्य राज्यों के किसानों के समर्थन को रोका जा सके।

भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया है। किसानों के विकास को केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता करार देते हुए प्रसाद ने कहा कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बातचीत की पेशकश की है, चर्चा और संवाद से ही हल निकलेगा।

पंचायती युगी में प्रदर्शन : भाकियू के अह्वान पर दिल्ली में किसान बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए कलकट्टे पहुंचे। यहां राकेश टिक्टैत ने कहा कि वह किसानों पर हो रहे अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर, मुजफ्फरनगर में एक किसान ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसे पुलिस और अन्य लोगों ने बचा लिया।

04 दैर की वार्ता किसान और केंद्र के बीच हो चुकी है जो विफल रही

11 बजे बुधवार को शंभू बॉर्डर पर विरोध-प्रदर्शन हुआ

हमारा इरादा शांति भंग का नहीं : डल्लेवाल

किसान की मौत हृदय विदारक : राहुल गांधी

केंद्र खुले मन से किसानों के साथ चर्चा को तैयार : रविशंकर

विदेश में विरोध

यूरोपीय देशों में भी फूटा गुस्सा जगह-जगह रास्ते किए जाम

मांगों को लेकर किसान सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को यूरोपीय संघ और स्थानीय कृषि नीतियों के खिलाफ कई यूरोपीय देशों में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। यहां उन्होंने रास्ते जाम कर दिए।



स्पेन की राजधानी मैड्रिड में बुधवार को ट्रैक्टर रैली निकालते किसान। • एपी

स्पेन में ट्रैक्टर रैली

फ्रांस में सड़क जाम

पोलैंड में किसानों ने पुतिन के समर्थन में की नारेबाजी

ये हैं किसानों की मांगें

यह सरकार नौकरी नहीं देगी: राहुल



भारत जोड़ो न्याय यात्रा 39वां दिन



कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को न्याय यात्रा लेकर कानपुर पहुंचे।

कानपुर, मुख्य संवाददाता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को उनका हक नहीं देगी। आप कितना भी चीखें, जाति नौकरियां नहीं देगी। जाति जनगणना हो जाए तो पता चल जाएगा कि इन वर्गों के लोगों की संख्या और स्थिति कैसी है। देश में 90 फीसदी आबादी इन्हीं चार वर्गों की है। वह बुधवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जनसभा में बोल रहे थे।

नौकरी नहीं मिल रही है। युवा हताश हैं। देश में अडाणी और अंबानी जैसे लोगों के पास ही अधिकांश धन है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का विकास हो और ये आगे बढ़ें। कांग्रेस इन वर्गों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में मोहब्बत का पैगाम पहुंचा रही है। उन्होंने आदिवासी सम्मान के मुद्दे पर भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहा कि राष्ट्रपति को अयोध्या के राम मंदिर समारोह में नहीं बुलाया।

दस्यु सुंदरी सीमा समेत चार को चार साल कैद

औरया, संवाददाता। 30 साल पुराने अपहरण के मामले में दस्यु सुंदरी सीमा परिहार सहित चार लोगों को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। 19 मार्च 1994 को गढ़िया बख्शी निवासी श्रीकृष्ण त्रिपाठी ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका भाई प्रमोद त्रिपाठी ट्यूबवेल पर बने कमरे में लेटा हुआ था। रात 12:30 बजे 10 से 15 बंदमाश आए और दरवाजा खुलवाकर प्रमोद को पकड़कर अजनपुर गांव की तरफ चले गए। बाद में गिरोह की पहचान डकैत लालाराम व सीमा परिहार के रूप में हुई।

Advertisement for MYFAIR skin cream. Text: करोड़ों लोगों का आजमाया MYFAIR रूप संवारे, त्वचा निखारे. Includes contact info: www.wellncare.com, 9896277535 & 9896134500.

Advertisement for Jubilent Industries. Text: जुबिलेंट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (CIN : L24100UP2007PLC032909) पंजीकृत कार्यालय : भारतीयग्राह्य, गुरुदाबाद, जिला अमरोहा-244 223, उत्तर प्रदेश, भारत ई-मेल : investors@jubl.com; वेबसाइट : www.jubilantindustries.com फोन : +91-5924-267437

Advertisement for Zee MyFair skin cream. Text: करोड़ों लोगों का आजमाया MYFAIR रूप संवारे, त्वचा निखारे. Includes contact info: www.wellncare.com, 9896277535 & 9896134500.

हलाल प्रमाण पत्र मामले में मदनी से पूछताछ

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। बिना किसी सरकारी संस्था के अधिकृत किये ही हलाल प्रमाण पत्र देने वाली संस्थाओं के खिलाफ जांच कर रही एसटीएफ ने मंगलवार और बुधवार को मौलाना महमूद अंसद हूसैन मदनी से कई घंटे पूछताछ की। जमीयत उलेमा हिन्द के सदर और हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन

असद मदनी ने प्रमाण पत्र से जुड़े कई सवालों के जवाब दिये तो कई सवालों का जवाब उन्होंने बाद में देने को कहा। एसटीएफ के नोटिस देने पर मदनी मंगलवार को अपने तीन वकीलों के साथ आये थे। एसटीएफ ने उन्हें जवाब देने के लिये सात दिन बाद फिर आने को कहा है। यह समय मौलाना मदनी ने मांगा था।

Obituary notice for Late Comdt. Kirpal Singh. Text: With profound grief and sorrow we inform you the sad demise of our beloved Father Late Comdt. Kirpal Singh. Antim Ardas and Kirtan for eternal peace of departed soul Thursday, February 22 at 1:00 P.M. Venue:- Bhai Vir Singh Memorial Hall, Lawrence Road, Amritsar.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना - 801507

Advertisement for AIIMS Patna. Text: एम्स पटना में स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस/एमडीएस/एम. सीएच 6 वर्ष) पाठ्यक्रम (जनवरी-2024 सत्र) में नामांकन हेतु संस्थान स्तर स्पोर्ट काउंसिलिंग सत्र जनवरी - 2024 हेतु रिक्त स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस/एमडीएस/एम. सीएच 6 वर्ष) के लिए नामांकन दिनांक 26 फरवरी, 2024 को 10:00 बजे पूर्वान्हन से ई-क्लारुम, चिकित्सा महाविद्यालय भवन, एम्स पटना में आयोजित किया जाएगा।

Advertisement for Jubilent Industries. Text: सदस्यों के माध्यम से अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान कर सकेंगे। कम्पनी ने अपने इक्विटी शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु एक एजेंसी के तौर पर एन एस डी एल की सेवाएं प्राप्त की हैं। ताकि वे इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट दे सकें। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया को डाक मतपत्र नोटिस में वर्णित किया गया है। सदस्य कृपया यह नोट कर लें कि ई-मतदान शनिवार, 24 फरवरी, 2024 को पूर्वाह्न 9.00 (भारतीय मानक समय) से शुरू होगी और रविवार, 24 मार्च, 2024 को सायं 5.00 बजे (भारतीय मानक समय) समाप्त हो जाएगी। उसके बाद मतदान हेतु एन एस डी एल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को नियंत्रित कर दिया जाएगा।